

Date: 14.08.2025

To, **BSE** Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051

Scrip Code: **541206**

Trading Symbol: OBCL

ISIN: INE426Z01016

Sub: Submission of Copies of Newspaper Advertisement regarding Publication of Financial Results

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of Newspaper Advertisement published on Thursday, August 14, 2025 regarding Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025, as approved by the Board of Directors in their meeting held on Wednesday, August 13, 2025.

The advertisement was published in following newspapers:

1. Hindu Business Line, English daily.

2. Pioneer (Hindi), Regional language daily.

This is in due compliance of the relevant Regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours Faithfully, Orissa Bengal Carrier Ltd.

MUSKAAN **GUPTA**

Digitally signed by MUSKAAN GUPTA Date: 2025.08.14 12:01:29 +05'30'

Muskaan Gupta Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

BlueStone Jewellery and Lifestyle IPO sails through

Chennai: The ₹1,540.65-crore public issue of BlueStone Jewellery and Lifestyle managed to be subscribed fully on the last day of the issue closing on Wednesday. The issue was subscribed 2.70 times. The IPO was a mix of fresh issue worth ₹820 crore and an offer-for-sale (OFS) of up to ₹720.65 crore by selling shareholders. The price band was fixed as ₹492-517 a share. QIBs were aggressive, with the reserved portion for them being subscribed 4.28 times. The NII portion remained under-subscribed at 0.55 time, while retail investors' portion saw 1.35 times. The company will use ₹750 crore for working capital and the rest for general corporate purposes. our BUREAU

BSE Index Services Jaunches defence index

New Delhi: BSE Index Services, an arm of stock exchange BSE, on Wednesday announced the launch of defence index to track the performance of those stocks representing the theme. The BSE India Defence Index is derived from the constituents of BSE 1000 Index, and reconstituted semi-annually in June and December. This new index can be used for running passive strategies such as ETFs and Index Funds as well as gauging the performance of the defence sector in India, BSE Index Services said. PTI

Clarification

In the story 'Over half of 80 SME IPOs in FY26 gave robust returns; more are in the pipeline' that appeared in the edition dated August 13, it was mentioned that the IPO of Oremet Alloys has received exchange approval. It was based on data sourced from an intermediary, who had digital proof that the approval had been given. However, the BSE has clarified that the IPO is still under

Settlements with SEBI hit highs in FY25; amount jumps eight-fold

ON THE RISE. Settlement applications soar to 703 in FY25; pending NSE cases may push up amounts

Akshata Gorde Mumbai

More market participants chose to settle disputes with SEBI last year rather than fight them in court, as both the number of applications and the amounts involved to settle jumped sharply.

In FY25, SEBI received 703 settlement requests, up from 434 in the previous year — an average of nearly three a day. The regulator collected ₹799 crore as settlement charges (₹94.5 crore). Another ₹65 crore came in disgorgement.

The spike is expected to continue, with large cases still pending. The National Stock Exchange (NSE), for example, has offered about ₹1,400 crore to settle legacy issues linked to the co-location and dark fibre matter. It has already paid ₹40.35 crorein June for violations found during an inspection for February 2021-March 2022.

A senior SEBI official said the increase reflects tougher enforcement, leaving less room to contest.

Of the 703 applications, SEBI settled 284 cases and rejected, returned or saw the withdrawal of 272. These covered alleged breaches across takeover norms, insider trading rules, fraudulent trade practices, disclosure requirements and mutual fund regulations.

CLEAR SHIFT

"SEBI's growing reliance on settlements shows a clear shift in its enforcement playbook. By nudging parties to

Settlement process Pending at the 137 282 beginning

> 434 703 Applications received Settled 114 284 through order 169 272 Rejected/ withdrawn Pending at 282 429 year-end

> > 94.5 798.9

amount (₹ cr) Source: SEBI annual report

Settlement

resolve matters quickly, the regulator is cutting down on drawn-out litigation," said Diviay Chadha, Partner at Singhania & Co. Chadha also questioned if some violations were being let off too lightly, and if deterrence was the same for everyone. The



drastic rise in the settlement amount can be attributed to a few cases like the settlement order in the TAP matter, said Vasudha Goenka, Partner at Cyril Amarchand Mangaldas.

"In most of the cases, applications are filed without admission of violation. Con-

sequently, settlement has become the preferred option leading to fewer adjudicatory proceedings and sequently, a decline in appeals before the Hon'ble Securities Appellate Tribunal (SAT)," said Saurabh Bachhawat, Managing Associate at Chandhiok & Mahajan.

The shift towards settlements has eased the load on the SAT, where new appeals fell to 533 (821). SEBI's enforcement record also showed penalties on institutions rising over eleven-fold to ₹813.8 crore.

Fraudulent and unfair trade practices cases dropped to 239 (796), insider trading cases fell to 15 (55) and noncompliance to just 2 (25).

At the same time, "difficult to recover" dues rose to ₹77,800 crore.

Markets upbeat as retail inflation hits eight-year low

Anupama Ghosh

Mumbai

Markets closed higher on Wednesday, with the BSE Sensex gaining 304.32 points to end at 80,539.91, while the NSE Nifty 50 advanced 131.95 points to settle at 24,619.35.

The rally was primarily driven by India's retail inflation touching an eight-year low of 1.55 per cent in July, significantly below the Reserve Bank of India's 2-6 per cent target range.

"Today, Indian equity markets delivered a robust positive performance," said Vaibhav Vidwani, Research Analyst, Bonanza Group. 'The market's upward trajectory was primarily driven by multiple positive catalysts that converged on this trading session."

Apollo Hospitals emerged the biggest gainer on Nifty 50, surging 8.20 per cent after reporting a 41.8 per

cent jump in Q1 consolidated net profit.

Hindalco followed with a 5.09 per cent gain, while Dr Reddy's Laboratories rose 2.71 per cent. Cipla gained 2.52 per cent, and Hero MotoCorp advanced 2.35 per cent.

NIFTY LOSERS

On the downside, IndusInd Bank led the losers, declining 1.26 per cent. Adani Ports fell 0.72 per cent, while ITC dropped 0.52 per cent. Titan slipped 0.43 per cent and Tech Mahindra declined 0.35 per cent.

Global cues provided substantial support, with US markets closing at record highs following tamer-thanexpected inflation data. The US headline CPI held steady at 2.7 per cent in July, slightly below the forecast, boosting expectations of Federal Reserve rate cuts.

Sectoral performance showed broad-based buying across most segments.

SEBI mulls revamping broker rules

Akshata Gorde Mumbai

SEBI has proposed a major overhaul of rules for stockbrokers, including easing compliance and aligning to the Companies Act.

The regulator has proposed a formal definition of "algorithmic trading" as the current regulations don't include the term, despite the growing share of such trades in the market. To simplify regulatory language and remove ambiguity, it proposes to define "execution-only platforms"

 online platforms that facilitate subscription, redemption and switching in direct plans of mutual funds. SEBI also suggested definitions for "proprietary trading,"

Draft rules seek clarity on algo, proprietary trading:

open new avenues

in govt securities clearly distinguish between a broker's own trades and those

executed for clients.

Following the draft proposals, shares of Angel One, Motilal Oswal, Nuvama Wealth, IIFL Capital and the BSE were among the top gainers, with the Nifty Capital Market index climbing over 2 per cent. Currently, such activities are covered under broad guidelines and circulars that are legally binding and issued whenever needed, but SEBI now aims to provide a

more formal structure. The proposals seek to streamline the framework by aligning sub-regulations, eliminating redundancies and harmonising provisions across different intermediary regulations. SEBI said the aim is to reduce costs, ease business and enrobust investor protection.

SEBI has suggested permitting stock brokers to access the Negotiated Dealing System - Order Matching (NDS-OM) platform for trading in government securities and to operate in Gift-IFSC through a separate unit. Currently, the NDS-OM is mainly available to banks and primary dealers. It has invited public comments on the proposals by September 3.

DHFL fraud case: SEBI bars Wadhawans from market, imposes ₹120-crore fine

Akshata Gorde

SEBI has barred former Dewan Housing Finance Corp Ltd (DHFL) Chairman and Managing Director Kapil Wadhawan, ex-director Dheeraj Wadhawan and four others from the securities markets for up to five years. The regulator has also prohibited them from holding senior positions in listed companies for similar periods, and levied total penalties of ₹120 crore for diverting funds and falsifying company records.

Those facing action in-

The stock is moving across a

sideways trend; stay out.



former non-executive chairman; Sarang Wadhawan, exnon-executive director; Harshil Mehta, former joint managing director and ČEO; and Santosh Sharma, former CFO.

The Wadhawans were promoters of DHFL.

Place: Raipur

In a 181-page order issued Tuesday, SEBI said DHFL, its promoters, directors and top executives were involved in "an egregiously fraudulent scheme" since 2006 to siphon off funds to "Bandra Book Entities" (BBEs), linked to the promoters.

UNFAIR PRACTICE

As of March 31, 2019, loans to these BBEs totalled ₹14,040.50 crore. According to SEBI's findings, large unsecured loans were extended to BBEs without assets, cash flow or business activity.

"To effect this elaborate deception, a fake virtual branch and previously-

closed retail loan accounts were employed, alongside three different accounting software, camouflaging the BBE loans as retail housing loans. In the initial years, well over 30 per cent of all loans of DHFL were to these BBEs," the order said.

Even without repayments from the BBEs, DHFL booked fake interest income, showing rising profits between FY07-08 and FY15-16, misleading shareholders and distorting its share price.

SEBI identified Kapil and Dheeraj as the key masterminds, with Rakesh and Sarang also involved through their board roles.

SEBI proposes to + streamline transfer of securities to legal heirs

Press Trust of India

SEBI on Tuesday proposed ard reason code to streamline the transfer of securities from nominees to legal heirs and ensure appropriate tax treatment for such transactions.

In a consultation paper, SEBI suggested introducing a specific reason code 'TLH' (Transmission to Legal Heirs) to be used by registrars, depositories and reporting entities while intimating the Central Board of Direct Taxes about such transmissions.

The move seeks to enable proper application of the provisions of the Income

Client retention and new client acquisition is key for AI

solutions provider Fractal

Analytics' initial public offer-

ing (IPO) success worth

prospectus filed with SEBI,

the company said that the

success of the IPO depends

on Fractal's ability to attract,

retain and expand relation-

ships with its clients. Failing

this, its business, financial

condition, cash flows may be

issue of ₹1,279.3 crore and

an offer for sale worth

₹3,620.7 crore.

The IPO comprises a fresh

In the OFS, Quinag Bidco

Ltd will sell shares worth

₹1,462.60 crore, TPG Fett

Holdings Pte Ltd (₹1,999.6

adversely affected, it said.

In its draft red herring

Vallari Sanzgiri

₹4,900 crore.

Mumbai

₹4,900-crore IPO

Fractal Analytics to launch

Tax Act, 1961. Currently, transmission of securities from nominee to legal heir of the original holder, some transactions are being securities.

This has resulted in capital gains tax being levied on nominees, even though clause (iii) of Section 47 of the Act does not consider such transmissions as "transfers" for tax purposes, SEBI said.

The regulator noted that the nominee merely acts as a trustee for the benefit of legal heirs of the original security holder and ultimately the securities which belong to the legal heir(s) are transmitted by the nominee to such legal

TODAY'S PICK.

(₹612.75): BUY

Akhil Nallamuthu

The stock of Aster DM Healthcare has been in an uptrend since March. It was triggered by the month, the scrip has been charting a sideways trend between ₹574 and

On Wednesday, the resistance at ₹610 was breached. This has opened the door for further appreciation. The chart indicates a potential rally to ₹680 in the near term. That said, before this upswing, the price might moderate to ₹590.

Given these factors, traders can go long on the stock at ₹612 and buy more shares at ₹590. Place a stop-loss at ₹560.

When the price hits ₹640, revise the stop-loss to ₹610. Tighten the stop-loss further to ₹640 when the stock appreciates to ₹660. Book profits at ₹680.

Note: The recommendations are based on technical analysis. There is a risk of loss in

Day trading guide

Aster DM Healthcare 24719

Nifty 50 Movers

24719	719 "Nifty 50 Futures			
S1	\$2	R1	R2	COMMENT
24620	24500	24750	25000	Buy the contract if it breaks out of 24750; stop-loss at 24650.

>> HDFC Bank 1945 2000 2025

126	» Inf	osys		
S1	S2	R1	R2	COMMENT
1415	1400	1 440	1 460	Charting a narrow sideways trend; refrain from trading.

₹1382	» Rel	iance In	d.	
S1	S2	R1	R2	COMMENT
1365	1 340	1 400	1420	Initiate short position at 1390;

₹822	» SBI			
S1	S2	R1	R2	COMMENT
816	810	830	840	Go long now and accumulate at 816; stop-loss can be 810.

13035 // ICS		•				
S1	S2	R1	R2	COMMENT		
3025	3000	3075	3150	The stock lacks direction at the moment; do not initiate trade.		

Nifty Next 50 Movers

▲ 398,35 pts.

S1, S2: Support 1 & 2; R1, R2: Resistance 1 & 2.

▲ 131.95 pts.

i bi c baiii	1000100		20.10	
Apollo Hosp				
Hindalco				
Bharti Airtel	1867.40	10.28	26.50	4.56
Eternal Ltd.				
Kotak Bank				
M&M	3282.20	8.91	27.39	2.60
Bharat Elec				
Cipla	1561.00	4.89	23.41	0.79
Dr Reddys Lab				
Tata Motors	663.75	4.44	11.32	1.24
Sun Pharma	1639.80	4.19	37.84	1.58
Bajaj Finance				
PowerGrid Corp				
Hero MotoCorp				
Reliance Ind				
ONGC				
Jio Financial Services Ltd.	330.60	2.60	129.28	0.97
HDFC Life	776.60	2.46	92.41	0.75
Shriram Finance Ltd.				
Hind Unilever				
Asian Paints				
Infosys				
L&T				
Eicher Motors				
Trent Ltd.				
TataConsumerProduct				
Bajaj Auto				
JSW Steel				
State Bank				
State Dalik NestleIndia				
Nestiernoia Bajaj Finserv				
HCL Tech Grasim Ind				
Coal India				
SBI Life				
TCS				
Tata Steel				
Wipro	241.65	-0.04	18.74	0.62
NTPC				
Maruti Suzuki				
Tech Mahindra				
Adani Enter				
UltraTech Cement				
IndusInd Bank				
Adani Ports				
Titan				
ICICI Bank				
Avic Donle	1000 00	2.52	11.00	272

	Close(₹)	Pts	PE	Wt(%)	
Hindustanaeronautics					
Indian Hotels Co	769.80	56.84	52.00	2.94	
Divis Lab	6100.50	51.30	70.23	3.37	
Samvardmothersoninternatl	93.39	39.96	23.78	1.80	
Tvs Motor Cmp .	3019.20	37.68	56.76	3.08	
Avenuesuper	4334.60	34.99	104.22	2.77	
Vedanta	438.75	27.02	8.62	3.24	
Intglobeavi					
Zyduslifesciences	988.60	23.83	21.29	1.07	
CG Power & Industrial Sol.					
Hyundai Motor India .					
Bajaj Holdings					
Tata Power					
Britannia Ind					
Cholamandalamin&Fin					
Macrotech Developers .					
Power Finance					
Swiggy.					
United Spirits .					
Icici Lombard Gic					
Rural Elec					
Info Edge I					
I-Prulife					
Siemens					
Indian Railway Finance Corp.					
Jsw Energy .					
Abb India					
Ltimindtree .					
Bosch					
Dabur India					
Havells					
Dlf					
Shree Cement					
Punjab Natl Bank					
Adani Energy Solutions .					
Godrej Consumer					
Jindal Steel					
Indian Oilcorp					
Torrent Pharma					
Canara Bank					
Adanigreenenergy					
Bpcl					
Bank Of Baroda					
Gail (India)					
Bajaj Housing Finance.					
Ambuja Cements Varun Beverages .					
Adani Power					
Pidilitind					
Lic	887.5U	18.64	11.62	U.86	
Pts: Impact on index movement					

ORISSA BENGAL CARRIER LTD. CIN: L63090CT1994PLC008732

Registered Office: Jiwan Bima Marg, Pandri, Raipur (CG) 492001
Corporate Office: A-1, Third Floor, CG Elite Complex, Opposite Mandi Gate, Pandri, Raipur (C.G.) 492001
Website: www.obcilmited.com, email(s): cs@obcilmited.com | Tel: +91-771 2281321 | 0771-4054518

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED)
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Based on the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors of the Company, at their meeting held on Wednesday, August 13, 2025, have approved the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the

Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025.
Pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the aforementioned Financial Results are available on the website of the Company at https://www.obclimited.com/pdf/Financial Results new/9989 Unaudited%20Financial%20Results%20for%20the%20quarter% 20ended%20June%2030,%202025.pdf and can also be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code:

For, Orissa Ben

Date: 13.08.2025

For, Orissa Bengal Carrier Ltd. Sd/- Ravi Agrawal Managing Director, DIN:01392652

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION

E-TENDER NOTICE Commissioner NMC invites e-tenders for the following work. These e-tenders can be download by the bidder from the e-tendering Portal (www.mahatenders.gov.in). The terms and conditions of e-tenders are available on the e-tendering Portal (www.mahatenders.gov.in). The sale and purchase of e-tenders can be done

Tender No.	Name of the work	Amount Put to Tender (In Rs)	
	Proposed Construction and Rehabilitation of Kuttewala Baba Mandir at Shanti Nagar, Itwari, Nagpur.	5,45,67,645/-	2,72,900/-

Note :- 1) Pre- Bid Meeting (16:00 hrs): 18 Aug 2025 & Tender Submission End Date (16:00 hrs): 21 Aug 2025. 2) Tender Opening Date (If Possible 16:00 hrs): 22 Aug 2025. 3) Right to reject any or all tenders without assigning any reason is reserved by the Municipal Commissioner N.M.C. Nagpur. 4) Eligibility criteria and mode of submission shall be as stated in uploaded tender document. 5) For any details regarding project, contact Executive Engineer (Project-1), 5th floor NMC Building, Civil Lines, Nagpur 440001. Email ID-

eeprojectnmc@gmail.com. Advt. No 374 PR Date 13.08.2025

Executive Engineer (Project-1) Nagpur Municipal Corporation, Nagpur.

Shriram

Date: August 12, 2025

Place: Bengaluru

SHRIRAM PROPERTIES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L72200TN2000PLC044560

Registered Office: Lakshmi Neela Rite Choice Chamber New No 9, Bazullah Road, T Nagar, Chennai – 600017. Corporate Office: Shriram House, No. 31, T. Chowdaiah Road, Sadashiva Nagar, Bengaluru - 560080 Tel. Ph.: +91-080-40229999 | Fax +91-80-41236222 | Email ID: cs.spl@shriramproperties.com | Website:www.shriramproperties.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of Shriram Properties Limited ("the Company") along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors of the Company for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the Company at their Meeting held on Tuesday, August 12, 2025, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

The aforementioned financial results along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors thereon are available on the website of BSE Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and on website of the Company at https://www.shriramproperties.com/financials. The same can also be accessed by scanning the QR code as provided below;



For and on behalf of the Board of **Directors of Shriram Properties Limited** Murali M

Chairman & Managing Director DIN:00030096

crore), Satya Kumari Remala and Rao Venkateswara Remala (₹29.5 crore) and GLM Family Trust (₹129 crore). The company derived 53.8

per cent of revenue from operations in its AI segment from its top-10 clients, of

which one client alone contributed 9.8 per cent of revenue in FY25 Existing 'Must Win Cli-

ents' (MWCs) - companies that have over \$10 billion in annual revenue or over \$20 billion in market capitalisation or over 30 million endcustomers - accounted for 80.8 per cent of revenue from operations.

In FY25, Fractal served 113 MWCs including Citibank, NA (Citi), Costco, Franklin Templeton, Mars, Mondelez, Nationwide, Nestle, Philips, among others. As of March 31, 2025, it served a majority of the "magnificent companies.

The company gained new clients and expanded market reach through selective acquisitions such as 100 per cent of share capital in Neal Analytics in FY22, 100 per cent shares of Senseforth and 55.92 per cent of shares of Analytics Vidhya. However, the company

potential increases in debt, among other things.

foresaw possible difficulties

such as unexpected costs,

जांच रिपोर्ट आई: डॉ. चेतन साहू ने बोला झूट, उन्हें कॉल किया गया था, इलाज करने नहीं आए, युवती की हुई थी मौत

जांच के दौरान इंटर्न डॉक्टरों

पर दबाव, बना रहे थे मोहरा

इस पूरे मामले में इंटर्न डॉक्टरों पर दबाव बनाकर

मोहरा बनाने का प्रयास किया गया। क्योंकि इनके

द्वारा ही मरीज के आने पर डॉ. चेतन साह् और डॉ.

मेश्राम को कॉल किया गया था। पहले नोटिस के बाद

इंटर्न डॉक्टरों से ये लिखवाया गया कि उन्होंने ऑन

कॉल डॉक्टरों को कॉल ही नहीं किया। ताकि डॉ.

चेतन और डॉ. मेश्राम को क्लीन चीट मिल जाए।

लेकिन जब जांच कमेटी ने पूछा तो साफहो गया कि

कॉल किया गया था, लेकिन दोनों डॉक्टरों ने कॉल

नहीं उठाया। इसी तरह डॉ पराग मेश्राम ने ड्यूटी पर

होने की बात कही। जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ

कर्मचारियों का बयान लिया गया। जिसमें सामने आया

कि डॉ पराग भी अबसेंट थे। मतलब जिम्मेदार डॉक्टर

इंटर्न को सामने लाकर खुद बचना चाह रहे थे।

कह्म था मुझे कॉल नहीं किया गया पांच सदस्वीय टीम ने जांच परी की, रिपोर्ट डीन को सौंपी जाएगी

पायनियर संवाददाता < राजनांदगांव

मेडिकल कॉलेज सह हास्पिटल में डायरिया से युवती की मौत और ऑन कॉल इयूटी डॉक्टर चेतन साहू व जूनियर रेजिडेंट डॉ. पराग मेश्राम के अबसेंट के मामले में जांच पूरी कर ली गई है। इसमें साफहो गया है कि दोनों ही डॉक्टरों को 16 जुलाई की रात कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और इलाज के लिए नहीं पहुंचे। दूसरी तरफडायरिया मरीज 17 वर्षीय हेमलता सिन्हा की मौत हो गई। यह मामला काफी गरमाया, इसके बाद डॉ. चेतन साहू ने हास्पिटल से कॉल आने को ही नकार दिया था, कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। लेकिन अब जांच रिपोर्ट में साफ हो गया है कि उन्हें कॉल किया गया था। मामले की पूरी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज हास्पिटल डीन को

सौंपी जाएगी। इस मामले के सामने आने के

पर नहीं आए, युवती की मौत, अब

बाद मेडिसीन विभाग के एचओडी डॉ.

नवीन टिकीं ने दोनों ही डॉक्टरों को नोटिस

जारी किया, जिसके बाद डॉ. चेतन साहू ने

मरीज के इलाज को लेकर हास्पिटल से

कॉल नहीं आने की बात कही। इसके बाद

एक और टीम को गठन किया गया, उसमें

पांच सदस्यों ने मामले की जांच की और

यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों ही डॉक्टरों ने

कॉल रिसीव नहीं किया। अब देखना होगा

कि हास्पिटल प्रबंधन इस मामले में क्या

कार्रवाई करेगा। बताया गया कि जांच कमेटी

के चिकित्सक राजनांदगांव से बाहर है, इस

कारण उनका जांच रिपोर्ट में हस्ताक्षर होना

शेष है। इसलिए रिपोर्ट को सबमिट नहीं

किया गया है1 लेकिन मामले में रिपोर्ट पुरी

निजी प्रैक्टिस पर सरकारी डॉक्टर: <u>ड्यटी थी</u> नोटिस का जवाब नहीं, जांच टीम बनी तो डॉ. पायनियर न का कहना..मुझे कॉल ही नहीं किया

डोंगरगांव रोड पर हास्पिटल

ऐसा है पुरा मामला अंबागढ़ चौकी के ग्राम करमतरा में रहने वाली 17 वर्षीय हेमलता सिन्हा को रेफर किया गया। उसे मेडिकल कॉलेज हास्पिटल लाया गया. उसे डायरिया की शिकायत थी। इस समय ऑन कॉल इयूटी पर डॉ. चेतन साहु और जूनियर रेजिडेंट डॉ. पराग मेश्राम थे। मरीज के आने पर दोनों को हास्पिटल से इंटर्न डॉक्टरों ने कॉल किया। लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। 17 ज़ुलाई को सुबह मरीज हेमलता सिन्हा की मौत हो गई। इसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। हास्पिटल के पीआरओ डॉ. पवन जेठानी ने कहा कि मामले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सौंपना शेष है। सभी के बयान लिए गए हैं, स्पष्ट है कि ऑन कॉल इयूटी डॉक्टरों को कॉल किया गया था। लेकिन वे कॉल नहीं उठाए।

वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत कोड़िया ग्राम पंचायत में एक दिवसीय शिविर का आयोजन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय समावेशन विभाग के निर्देशानुसार एक जुलाई से 30 सितम्बर तक चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन योजनाओं के संतृप्ति अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले की कोडिया ग्राम पंचायत में एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बैंक ऑफ बडौदा हनोदा शाखा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों ने सि्कय सहभागिता निभाई। शिविर का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना, पात्र खाताधारकों का पुनः केवाईसी कराना और जनधन, बीमा, पेंशन आदि योजनाओं की जानकारी और लाभ दिलाना था। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक रिनी अजीत ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने बैंकों के अधिकारियों और लाभार्थियों से संवाद कर वित्तीय



खाताधारकों से समय पर केवाईसी पूर्ण करने की अपील की। अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय गर्ग ने बताया कि 264 खातों का पुनः केवाईसी किया गया, 12 नए जनधन खाते खोले गए, 36 खातों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 23 खातों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 6 खातों में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण शिविर में कोडिया और आसपास के गाँवों के नागरिकों, विशेषकर महिला समृहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और

विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। आमजन में जागरूकता बढाने के लिए नुक्रड़ नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसमें केवाईसी, बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर से दीपेश तिवारी, बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक बी. चावड़ा, उप क्षेत्रीय प्रबंधक दुर्ग जयप्रकाश नारायण, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय गर्ग, तथा छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन सिंह चंदेल भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने वित्तीय समावेशन को समावेशी विकास की

जिला अस्पताल में मारपीट करने वाले चार आरोपी गए जेल

जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक और अस्पताल कर्मी के साथ गाली-गलौज,मारपीट और मोबाइल लूट की वारदात करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफलूट, शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की संगीन धाराओं के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे इमरजेंसी वार्ड में ड्रेसर पंकज ठाकुर ने पुलिस आरक्षक को सूचना दी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में नर्स और वार्ड बॉय से गाली-गलौज कर रहा है। पुलिस आरक्षक मौके पर पहुँचा और आरोपी दिलसाय सोनवानी को पकडकर समझाइस देकर बाहर भेज



दिया। कुछ देर बाद दिलसाय अपने साथियों मे राम सोनवानी, सुखसेन सोनवानी और अमसिया सोनवानी के साथ अस्पताल परिसर में फिर गाली-गलौज करने लगा। रोकने पर आरोपियों ने आरक्षक के साथ अश्लील गालियाँ देते हुए डंडे और हाथ-मुक्कों से हमला किया। मोबाइल से सूचना देने की कोशिश कर रहे आरक्षक का फोन भी आरोपियों ने लूट लिया। हंगामा सुनकर सुरक्षा गार्ड महेश सिंह बीच-बचाव करने पहुँचे तो आरोपियों ने उनके साथ

और एक अन्य आरोपी मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 110/2025 धारा बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू की। तकनीकी और मैदानी कार्रवाई के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर आरोपियों को 12 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज

साक्षी सुरक्षा स्कीम से बेसुध छत्तीसगढ़ सरकार : कांग्रेस

बीएनएस की धारा 398 लागू कराने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

भारत देश में नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया है, जिसकी धारा 398 में प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षी सुरक्षा स्कीम बना कर अधिसुचित करने का प्रावधान है। इसका पालन छग सरकार ने अब तक नहीं किया है। इसे लेकर कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता रूपेश दुबे, पूर्व शासकीय अधिवक्ता परवेज अख्तर, शहर कांग्रेस महामंत्री नरेश कुमार शर्मा, पूर्व शास. अधिवक्ता कुंजलाल साहू, अधिवक्ता उमेश मिश्रा, नेमेंद्र पंसारी देवेंद्र साहू, व विधि छात्र शाश्वत सिंह ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर राजनांदगांव को सौंपा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस



विधि विभाग के महामंत्री रूपेश दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। कानून व्यवस्था बदहाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत साक्षी सुरक्षा की स्कीम से

बेसुध है। इसके चलते भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 में प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार

कर उसे अधिसूचित करने का स्पष्ट प्रावधान है। इस संबंध में विधि एवं विधायि विभाग को सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी चाही गई तो उन्होंने 6 जून को आरटीआई आवेदन को गृह विभाग से संबंधित होने के कारण उन्हें अंतरित कर दिया

सुकाअ/ 2025, 13. 6.2025 में यह जानकारी दी गई कि अब तक की स्थिति में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे यह साफ हो गया कि साक्षी सुरक्षा स्कीम ही छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार नहीं की है। तभी अधिसूचना जारी नहीं की है भारतीय कानून के प्रावधानों का भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक पालन नहीं करने की दशा में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर राजनांदगांव को अधिवक्ता साथियों के साथ ज्ञापन सौंप कर के साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करने एवं उसे अधिसूचित करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को देने की मांग की गई है।

गया और गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने पत्र ऋ

2238/66/दो-गृह/

नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत फरार प्रधानपाठक गिरफ्तार

 छात्रा के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज. भिलाई से आरोपी

पायनियर संवाददाता 🌂 राजनांद्रगांव

नाबालिग छात्रा को बैड टचकर अश्लील हरकत करने के मामले में चिखली पुलिस ने प्रधानपाठक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में आरोपी प्रधानपाठक के खिलाफ मामला कायम किया गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी, वह फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस की टीम ने भिलाई से आरोपी प्रधानपाठक को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार १ अगस्त को प्रार्थी चौकी चिखली आकर आवेदन पेश कर



रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिंग लड़की के सांथ स्कुल का प्रधान पाठक नेतराम वर्मा द्वारा बाडी पार्ट्स पढ़ाने के बहाने बच्चियों को अपने ऑफिस मे बुलाकर बुरी नियत से अश्लील हरकत करता है। इसमें छेड़छाड़ कर प्राइवेट अंगों को छुना, सहलाना किया जाता है। इसके चलते बच्ची स्कूल जाने के नाम पर डर सहम गई। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने धारा 74 बीएनएस, 8,10 पाक्सो एक्ट

अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे

लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपी के पता तलाश के लिए लगातार आरोपी के करीबियों के यहां दिबश दी जा रही थी। इसी दौरान आरोपी नेतराम वर्मा पिता स्व. जेठुराम वर्मा उम्र 52 साल भिलाई सेक्टर फ्लाई ओवर के नीचे वाहन का इंतजार कर रहा था। उसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

घर-घर संविधान, जन- जन संविधानः अध्ययन -अध्यापन के लिए पाठ्यक्रम का विषय बने , भारत का संविधान

65 वर्ष की अधिवर्षिकी आयु पूर्ण जून सन 2020 में शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरौद से सेवानिवृत हुए प्राचार्य स्थानीय निवासी व प्रबुद्ध डॉक्टर

ए.आर.बंजारे ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा तथा छत्तीसगढ़ शासन के सभी मंत्रियों, लोकसभा क्षेत्र जांजगीर की सांसद कमलेश जांगड़े और पामगढ़ क्षेत्र की विधायक शेषराज हरबंश, कुल मिलाकर संविधान को कक्षा छठवीं से बारहवीं

(मिडिल, हाई तथा हायर सेकेंडरी) तक के सभी कक्षाओं सभी संकायों में इसकी 'प्रस्तावना' से लेकर इसके समस्त 'अनुच्छेदों' तक को कक्षावार प्रखंडों में बांटकर अनिवार्य विषय/ प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन -अध्यापन के दायरे में लाया जावे। यह माना जा रहा है कि इस गंभीर और विचारणीय मुददे को उपरोक्त समस्त जनों को भेज कर डॉक्टर ए.आर. बंजारे ने अपने बौद्धिक तकाजे का एक

उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।डॉक्टर बंजारे ने यही मांग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भेजें अपने पत्र में बघेल और उनकी राजनीतिक टीम तथा यह मांग किया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल से भी 10 जून भेज कर किया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए बघेल सरकार ने 'भारत का संविधान' महत्वपूर्ण बिंदु नाम से 15 पृष्ठों का राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, रायपुर से संविधान, निर्माण, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक शीर्षकों पर आधारित अत्यंत संक्षिप्त जानकारी प्रकाशित कराया था। जबिक, डॉक्टर बंजारे की मांग के अनुरूप इसे स्कूल के पाठ्यऋमों में संपूर्ण रूप से अध्ययन-अध्यापन का विषय

वाहन चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बसंतपुर थाना और सुकुलदैहान चौकी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9 गाड़ियां जब्त 🎚

> वाहन भी बरामद किया गया है। जब्त गाड़ियों को कीमत तकरीबन साढ़े 5 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों ने पूछताछ की जा रही है, इसमें चोरी की गाड़ियों के और भी मामले सामने आ सकते हैं। पत्रकारवार्ता के दौरान एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि गाड़ी चोरी के मामले में ठेलकाडीह निवासी



चोरी की गाड़ियां जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों

की गई है, वहीं घटना में प्रयुक्त एक गोपाल वर्मा और चिखली निवासी साकार सिंह बैस को अरेस्ट किया गया है। बताया गया कि सभी गाड़ियों को अलग-अलग एरिया से चोरी किया गया था।

इनमें लालबाग, डोंगरगांव, बंसतपुर और बालोद जिले गाड़ियां शामिल है। एसपी गर्ग ने बताया कि मामले में विवेचना की जा रही है।

डीएफओ ने कराया विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम का आयोजन

पायनियर संवाददाता < रामानुजगंज

www.dailypioneer.com

विश्व हाथी दिवस के अवसर पर डीएफओ आलोक वाजपेयी के नेतृत्व में वन वाटिका में स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जहां हाथी के बारे में जानकारी व संरक्षण के साथ जैव विविधता, हाथी-मनुष्य के सामान्य द्वंद की जानकारी के साथ वन वाटिका परिसर का भ्रमण पश्चात एन्टी स्नेयर



फॉरेस्ट वॉक कराया गया। मां शारदा बाल निकेतन, साई बाबा पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, चाईल्ड एजूकेशन, सुभद्रा मेमोरियल, शासकीय माध्यमिक शाला कोईरी

टोला में अध्यनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया था जिनके द्वारा चित्रकला एवं बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रथम द्वितीय

एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मान स्वरूप पुरस्कार वितरण किया गया और हाथी मित्र दल के सदस्यों को जंगल भ्रमण हेतु चरण पादुका दी गई।



eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय मुख्य अभियंता

महानदी गोदावरी केंछार, रायपुर (छ.ग.)

छुईखदान दिनांक 11.08.2025

निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 01.09.2025 17:30 तक लम्प-सम निविदा फार्म फ़ से ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है: अनुमानित

ण्डर		लागत
म्बर		
	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखंड खैरागढ़ के अंतर्गत लमती	
	फीडर लघु जलाशय योजना के मुख्य बांध का 990 मी. लंबाई में (अनुमानित)	
	मिटटी बांध का डिजाइन, ड्राईंग एवं निर्माण, स्पीलवे लंबाई 167 मी.	रू. 13722.98
	(अनुमानित), स्पील चैनल लंबाई 1050 मी. (अनुमानित) से संबंधित	लाख
	सभी निर्माण कार्य, 01 नग हेड स्लूस डबल गेट के साथ, फीडर नहर के	
	निर्माण से संबंधित सभी कार्य, पुर्नबसाहट कार्य (बिल्डिंग कार्य इत्यादि)	
	तथा रोड कार्य का निर्माण, बंड लाईन में ड्रीलिंग के साथ मिट्टी स्ट्रेटा का	
	अन्वेषण, डुबान क्षेत्र, बंड लाईन एवं स्पीलवे के साथ स्पील चैनल एवं नहर	
	कार्य का भू-अर्जन प्रकरण तैयार करना एवं कम्पलायंस कराना, वन एवं	
	पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली से वनभूमि प्रकरण एवं पर्यावरण क्लीयरेन्स कराना	
	और सभी प्रकार के अन्य संबंधित कार्य, बांध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पांच	

साल वर्षाऋत तक परे कार्यों का संचालन एवं मरम्मत का कार्य।

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट nttps://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 18.08.2025 समय 17.31 बजे से देखे तथ

डाउनलोड किये जा सकते है। **नोटः** निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

Executive Engineer Water Resources Division Chhuikhadan (C.G.)

जी-252602762/6

कार्यपालन अभियंता जल् संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) कृते मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार,

युक्तियुक्तकरण का असरः ग्राम हनोदा स्कूल के तीन बच्चों का नवोदय में चयन

युक्तियुक्तकरण नीति से जहां एक ओर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया, वहीं दूसरी ओर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसका लाभ ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राईवेट स्कूल की ओर रूख बदल रहे थे। दुर्ग जिले का हनोदा गांव के प्राथमिक स्कूल में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां पहली से पांचवी तक के बच्चे अध्ययनरत है। पहले बच्चे समय पर स्कूल तो जाते थे, लेकिन शिक्षकों के कमी के कारण सभी कक्षाओं में पढ़ाई नही हो पाती थी। वर्तमान में हनोदा स्कूल के बच्चों को तीन नये शिक्षक मिलने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रत्येक कक्षा



के लिए एक-एक शिक्षक उपलब्ध हैं। पूर्व में शिक्षक की कमी के चलते एक शिक्षक मानदेय पर रखा गया था, जो पहली कक्षा को पूरे विषय पढ़ाती थी। युक्तियुक्तकरण नीति के तहत हनोदा स्कूल में अब तीन नए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षक उपलब्ध हैं, जिससे अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्कूल प्रभारी सरोजनी वर्मा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण से स्कूलों में

सकारात्मक परिणाम देखने को मिला।

उन्होंने जानकारी दी कि हनोदा स्कूल के तीन छात्रों का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है, जो यहां की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को दर्शाता है। स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए अलग से विशेष कक्षाएं ली जाती है, जहां उनके बेसिक जानकारी देकर मजबूत किया जाता है। यहां के बच्चे बहुत होनहार है, उन्हें जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे नियमित रूप से पूरा करके आते हैं। साथ ही अभिभावक भी जागरूक हैं, यदि बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाता है, तो स्वयं आकर इसका कारण पूछते हैं।

ORISSA BENGAL CARRIER LTD.

CIN: L63090CT1994PLC008732

31.03.2025 को समाप्त तिमाही अवधि के लिए अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित

वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश लेखा समिति की सिफारिश के आघार पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने बुधवार, 13 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही अविध के कंपनी के अलेखापरीक्षित एकल (Standalone) एवं समेकित

(Consolidated), वित्तीय परिणामों के लिए अनुमोदित किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.obclimited.com/pdf/ Financial_Results_new/9989_Unaudited%20Financial%20Results%20for%20the%20quarter%2 0ended%20June%2030,%202025.pdf पर उपलब्ध हैं और इन्हें त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड स्कैन करके भी देखा

दिनांक : 13.08.2025

कृते, उड़ीसा बंगाल कैरियर लिप्पिटे एसडी/- रवि अग्रवाल